



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 3] नई दिल्ली, जनवरी 15—जनवरी 21, 2006, शनिवार/पौष 25—माघ 1, 1927
No. 3] NEW DELHI, JANUARY 15—JANUARY 21, 2006, SATURDAY/PAUSA 25—MAGHA 1, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृष्ठक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2006

सा. का. नि. 12.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 1972 को, जहां तक उनका संबंध निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, अनुवाद-सह-प्रशिक्षण अधिकारी, वरिष्ठ अनुवादक और तकनीकी सहायक के पदों से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अधीन केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में समूह 'क' और समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
1. निदेशक	1*(2006) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसूचित	14,300-400- 18,300 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7		8		9	10
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता		प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा			
11		12			
संयुक्त पद्धति : प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति।		संयुक्त पद्धति :			
		I. केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :			
		(क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हैं;			

अथवा

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में 12,000-16,500 रुपए के या समतुल्य वेतनमान वाले पद पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर पाँच वर्ष की सेवा कर ली है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :—

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य,

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी सहित अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य,

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी विषयों सहित किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य,

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य,

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी सहित किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य,

(ii) प्रशासनिक कार्य का पाँच वर्ष का अनुभव।

II. ऐसे विभागीय संयुक्त निदेशक, जिन्होंने इस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है, पर भी बाह्य अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा। इस पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन किए जाने की दशा में, इस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।

टिप्पणी : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

इसी तरह प्रतिनियुक्त व्यक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

(प्रोन्नति या पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

- (i) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष
(ii) संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग —सदस्य
(iii) निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो —सदस्य

1	2	3	4	5	6
2. संयुक्त निदेशक	4* (2006) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	12,000-375-16,500 रुपए	चयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11

12

25% सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं, और 75% प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

प्रोन्नति:

ऐसे उप निदेशक, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।

टिप्पणी : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :

(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों और विश्वविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और अर्ध-सरकारी संगठनों, सांविधिक तथा स्वायत्ता संगठनों के ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हैं;

अथवा

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में 10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान में या समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा कर ली है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य,

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी सहित अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य,

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी विषयों सहित किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य,

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अंग्रेजी सहित किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य,

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिंदी सहित किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य;

(ii) अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का पांच वर्ष का अनुभव,

(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान में स्नातकोत्तर कक्षाओं को हिंदी शिक्षण का पांच वर्ष का अनुभव या समतुल्य या अनुवाद में प्रशिक्षण देने का 5 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा समकक्ष से मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर पर हिंदी के अतिरिक्त संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा का ज्ञान हो;

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से शब्दकोष विज्ञान में विशिष्टता सहित भाषा-विज्ञान में डिप्लोमा अथवा स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य;

(iii) प्रशासनिक कार्य का तीन वर्ष का अनुभव।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

इसी तरह प्रतिनियुक्त व्यक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| (i) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग | —अध्यक्ष |
| (ii) संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग. | —सदस्य |
| (iii) निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो | —सदस्य |

पद को प्रतिनियुक्ति से भरने के लिए (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और इन नियमों के किसी उपबंध में कोई संशोधन करने और छूट देने के लिए संघ लोक सेवा में आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है।

1	2	3	4	5	6
3. उपनिदेशक	2* (2006) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसन्धिवीय	10,000-325- 15,200 रुपए	चयन	लागू नहीं होता
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
11	12				

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति :

ऐसे सहायक निदेशक, जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है।

टिप्पणी : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हैं;

अथवा

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में 8,000-13,500 रुपए के वेतनमान में या समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा कर ली है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य,

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी सहित अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य,

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी सहित किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य,

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अंग्रेजी सहित किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य,

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिंदी सहित किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य;

12

(ii) अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का सात वर्ष का अनुभव, जिसमें से चार वर्ष का पर्यवेक्षण और अनुवाद के पुनरीक्षण कार्य का अनुभव होना चाहिए।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

इसी तरह से प्रतिनियुक्त व्यक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13

14

प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह "क" विभागीय प्रोन्नति सभिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| (i) संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग | —अध्यक्ष |
| (ii) निदेशक, राजभाषा विभाग | —सदस्य |
| (iii) निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो | —सदस्य |

पद को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरने के लिए और इन नियमों के किसी उपबंध में कोई संशोधन करने और छूट देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है।

1	2	3	4	5	6
4. सहायक निदेशक	5*(2006) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसंचिवीय	8,000-275-13,500 रुपए	चयन	लागू नहीं होता
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष		

11

12

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति :

ऐसा अनुवाद एवं प्रशिक्षण अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हैं;

अथवा

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में 7,500-12,000 रुपए के वेतनमान में या समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा कर ली है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य,

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी सहित अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य,

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी सहित किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य,

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अंग्रेजी सहित किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य,

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिंदी सहित किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य;

(ii) अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का पांच वर्ष का अनुभव, जिसमें से तीन वर्ष का अनुभव :

(क) पर्यवेक्षण, और

(ख) अनुवाद के पुनरीक्षण और अनुवाद कार्य में प्रशिक्षण देने का होना चाहिए।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

इसी तरह से प्रतिनियुक्त व्यक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| (i) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग | —अध्यक्ष |
| (ii) संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग | —सदस्य |
| (iii) निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो | —सदस्य |

पद को भरने के लिए और इन भर्ती नियमों के किसी उपबंध में कोई संशोधन करने और छूट देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है।

1	2	3	4	5	6
5. अनुवाद एवं प्रशिक्षण अधिकारी	36*(2006) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसन्धिवीय	7,500-250-12,000 रुपए	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पणी.—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
1					
7	8	9	10		
नहीं।	<p>आवश्यक :</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य,</p> <p>अथवा</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी सहित अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य,</p> <p>अथवा</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी सहित किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य,</p> <p>अथवा</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अंग्रेजी सहित किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य,</p> <p>अथवा</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिंदी सहित किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य।</p> <p>(ii) अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य में तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें एक वर्ष का अनुभव पर्यवेक्षण और अनुवाद के पुनरीक्षण का होना चाहिए।</p>	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती से किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष		

टिप्पणी 1.—अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पणी 2.—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

वांछनीय :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से भाषा-विज्ञान में प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा या स्नातक उपाधि या समतुल्य।

(ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा समकक्ष से मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर पर हिंदी के अतिरिक्त संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा का ज्ञान हो।

75% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा
25% सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति :

ऐसे वरिष्ठ अनुवादक/अनुसंधान सहायक (अब वरिष्ठ अनुवादक के रूप में पुनः पदनामित) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :

केंद्रीय और राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हैं;

अथवा

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में 6,500—10,500 रुपये के वेतनमान में या समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा कर ली है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है।

12

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

इसी तरह से प्रतिनियुक्त व्यक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13

14

प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह "ख"
विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :

- | | |
|--|----------|
| (i) निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो | —अध्यक्ष |
| (ii) निदेशक/उप-सचिव, राजभाषा विभाग | —सदस्य |
| (iii) संयुक्त निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो | —सदस्य |

सीधी भर्ती करने, किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने अथवा इन भर्ती नियमों के किसी भी उपबंध में संशोधन करने और छूट देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है।

1	2	3	4	5	6
6. वरिष्ठ अनुवादक	54 * (2006) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसंधितीय	6,500-200- 10,500 रुपए	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पणी.—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

7	8	9	10
नहीं	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य,	आयु : कोई नहीं। शैक्षणिक अर्हता : कोई नहीं, परंतु किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी एक विषय सहित स्नातक उपाधि या समतुल्य आवश्यक है।	सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष।

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी सहित अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य,

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी सहित किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य,

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अंग्रेजी सहित किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य,

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिंदी सहित किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य,

(ii) हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली संबंधी कार्य तथा/अथवा अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य मुख्यतः तकनीकी एवं वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद का तीन वर्ष का अनुभव;

अथवा

हिंदी में शिक्षण, अनुसंधान, लेखन अथवा पत्रकारिता में तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी 1.—अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संब लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पणी 2.—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संब लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संब लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

वांछनीय :

किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा समकक्ष से मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर पर हिंदी के अतिरिक्त संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा का ज्ञान हो।

11

10% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 90% सीधी भर्ती द्वारा।

12

प्रोन्नति :

ऐसे तकनीकी सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।

टिप्पणी : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :

केंद्रीय और राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हैं;

अथवा

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में 5,500-175-9,000 रुपए के वेतनमान में या समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा कर ली है; और

(iii) जिनके पास स्तंभ 8 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की संक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

इसी तरह से प्रतिनियुक्त व्यक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाढ़ पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13

प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह "ख"
विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :

- | | |
|--|----------|
| (i) निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो : | —अध्यक्ष |
| (ii) निदेशक/उप सचिव, राजभाषा विभाग | —सदस्य |
| (iii) संयुक्त निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो | —सदस्य |

14

सीधी भर्ती करने, किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने अथवा इन भर्ती नियमों के किसी भी उपबंध में संशोधन करने और छूट देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है।

1	2	3	4	5	6
7. तकनीकी सहायक	9* (2006) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसंधितीय	5,500-175-9,000 रुपए	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणी. —आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,

6

सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

7	8	9	10
नहीं	<p>आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी स्तर सहित हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य।</p> <p>अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी सहित अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य,</p> <p>अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी सहित किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य,</p> <p>अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अंग्रेजी सहित किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य,</p> <p>अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिंदी सहित किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य।</p> <p>टिप्पणी 1.—अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पणी 2.—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p> <p>वांछनीय : अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद का दो वर्ष का अनुभव।</p>	<p>आयु : कोई नहीं।</p> <p>शैक्षणिक अर्हता : कोई नहीं, परंतु किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी विषयों सहित स्नातक उपाधि या समतुल्य आवश्यक है।</p>	<p>सीधी भर्ती/प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष।</p>

10% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

90% सीधी भर्ती द्वारा।

तकनीकी सहायक के पद के 5500-175-9000 रुपए के वेतनमान में कोटि उन्नयन से पूर्व इस पद के 1400-2300 रुपए (संशोधन-पूर्व) वेतनमान में नियमित धारक की उपयुक्तता आरंभ में कोटि उन्नयन किए गए पद पर नियुक्ति के लिए आकलित की जाएगी। यदि उसे उपयुक्त पाया जाता है तो उसे प्रारंभ में गठित पद पर नियुक्त समझा जाएगा।

यदि ऐसे उन्नयन किए गए वेतनमान पर नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है तो वह 4500-7000 रुपए के संशोधित वेतनमान में कार्य करता रहेगा और उसके मामले की प्रतिवर्ष समीक्षा की जाएगी।

प्रोन्नति :

ऐसे प्रूफ रीडर जिन्होंने उस श्रेणी में 10 वर्ष की नियमित सेवा की है।

टिप्पणी : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :

केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हैं; अथवा

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में 5,000-150-8,000 रुपए के वेतनमान में या समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा कर ली है; अथवा

(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में 4,500-125-7,000 रुपए के वेतनमान में या समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छः वर्ष की सेवा कर ली है; अथवा

(iv) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में 4,000-100-6,000 रुपए के वेतनमान में या समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् अपने ग्रेड में दस वर्ष की सेवा कर ली है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

इसी तरह प्रतिनियुक्त व्यक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह "ख"
विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :

- (i) निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो
- (ii) संयुक्त निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो
- (iii) अवर सचिव, राजभाषा विभाग

—अध्यक्ष
—सदस्य
—सदस्य

इन नियमों के किसी भी उपबंध में संशोधन करने/छूट देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है।

[फा. सं. 4-5/98-प्रशासन]

बृजमोहन सिंह नेगी, निदेशक (नीति)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**(Department of Official Language)**

New Delhi, the 16th January, 2006

G.S.R. 12.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Translation Bureau, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 1972, so far as they relate to the posts of Director, Joint Director, Deputy Director, Assistant Director, Translation-cum-Training Officer, Senior Translator and Technical Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' and Group 'B' posts in the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Translation Bureau, namely :—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Translation Bureau, Group 'A' and Group 'B' posts Recruitment Rules, 2006.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. Disqualifications.—No person, —

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of this rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
1. Director	(2006) 1* *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Services Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs.14300-400-18300	Not applicable
Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972		Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6		7	8	9
Not applicable.		Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.
10	11	12
Not applicable	Composite method Promotion/Deputation	<p>Composite method.</p> <p>1. Officers under the Central Government:</p> <p>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in the scale of pay of Rs. 12000-16500 or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:—</p> <p>(i) Master's Degree from a recognized University or equivalent in Hindi with English as a subject at Degree level,</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's Degree from a recognized University or equivalent in English with Hindi as a subject at Degree level,</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's Degree from a recognized University or equivalent in any subject with Hindi and English as subject, at Degree level.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's Degree from a recognized University or equivalent in any subject with Hindi medium and English as a subject at Degree level,</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's Degree from a recognized University or equivalent in any subject with English medium and Hindi as a subject at Degree level.</p> <p>(ii) Five years' experience of administrative work.</p> <p>2. The Departmental Joint Director with five years' regular service in the Grade shall also be considered alongwith outsiders. In case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>

12

Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

13

14

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of :—

Consultation with the Union Public Service Commission is necessary

- (i) Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman
- (ii) Joint Secretary, Department of Official Language —Member
- (iii) Director Central Translation Bureau —Member

1

2

3

4

5

2. Joint Director

(2006) 4*
*(Subject to variation dependent on workload).

General Central Services Group 'A' Gazetted Non-Ministerial

Rs.12000-375-16500.

Selection

6

7

8

9

Not applicable.

Not applicable

Not applicable

Not applicable

10

11

12

Not applicable

Twenty five per cent by promotion failing which by Deputation including short term contract and seventy five per cent by deputation including short term contract.

Promotion :

Deputy Director with five years' regular service in the Grade.

Note .—Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation : (including short term contract).

Officers under the Central Government, State Government and Union Territories and Universities and recognised Research Institutions and Public Sector Undertakings and Semi Government, Statutory and Autonomous Organisations :

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department;

OR

(ii) with five years' service in the grade after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 or equivalent in the parent cadre/department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience :

(i) Master's Degree from a recognized University or equivalent in Hindi with English as a subject at Degree level,

OR

Master's Degree from a recognized University or equivalent in English with Hindi as a subjects at Degree level.

OR

Master's Degree from a recognized University or equivalent in any subject with Hindi and English as subject at Degree level.

OR

Master's Degree from a recognized University or equivalent in any subject with Hindi medium and English as a subject at Degree level.

OR

Master's Degree from a recognized University or equivalent in any subject with English medium and Hindi as a subject at Degree level.

(ii) five years' experience of translation work from English to Hindi and vice-versa.

(iii) Five years' experience of teaching Hindi to post graduate classes of a recognized University/Institute or equivalent or five years' experience of imparting training in translation.

Desirable :

(i) Knowledge at the level of matriculation or equivalent of a recognized board or equivalent in one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution;

(ii) Diploma or Bachelor's degree or post graduate degree of a recognized university/institute or equivalent in linguistics with special reference to lexicography;

(iii) Three years' experience of administrative work.

(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

B
14

Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion :—			Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for filling the post on deputation (including short-term contract) and amending and relaxing any of the provisions of these recruitment rules.	
	(i) Chairman/Member, Union Public Service Commission	—Chairman		
	(ii) Joint Secretary, Department of Official Language	—Member		
	(iii) Director Central Translation Bureau.	—Member		

1	2	3	4	5
3. Deputy Director	2* (2006) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs.10000-325-15200.	Selection

6	7	8	9
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

10	11	12
No applicable	Promotion failing which by Deputation.	<p>Promotion : Assistant Director with five years' regular service in the Grade.</p> <p>Note .—Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Deputation : Officers under the Central Government, State Government and Union Territories :</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 8000-13500 or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>(i) Master's Degree from a recognized University or equivalent in Hindi with English as a subject at Degree level,</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's Degree from a recognized University or equivalent in English with Hindi as a subject at Degree level.</p>

12

OR

Master's Degree from a recognized University or equivalent in any subject with Hindi and English as subject at Degree level.

OR

Master's Degree from a recognized University or equivalent in any subject with Hindi medium and English as a subject at Degree level.

OR

Master's Degree from a recognized University or equivalent in any subject with English medium and Hindi as a subject at Degree level.

(ii) Seven years' experience of translation work from English to Hindi and vice-versa out of which four years' experience should be in supervision and vetting of translation.

(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation/Contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

13

14

Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion :—

- | | |
|--|-----------|
| (i) Joint Secretary, Department of Official Language | —Chairman |
| (ii) Director, Department of Official Language | —Member |
| (iii) Director Central Translation Bureau | —Member |

Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for filling the post on deputation and amending and relaxing any of the provisions of these recruitment rules.

1	2	3	4	5
4. Assistant Director	5* (2006) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Services Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs.8000-275-13500.	Selection
6	7	8	9	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	

10	11	12
Two years for promotees.	By promotion failing which by Deputation.	<p>Promotion : Translation-cum-Training Officer with two years' regular service in the grade.</p> <p>Note .—Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite/qualify/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Deputation : Officers under the Central Government, State Government and Union territories :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 7500-12000 or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:—</p> <p>Essential :</p> <p>(i) Master's Degree from a recognized University or equivalent in Hindi with English as a subject at Degree level,</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's Degree from a recognized University or equivalent in English with Hindi as a subject at Degree level.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's Degree from a recognized University or equivalent in any subject with Hindi and English as subjects at Degree level.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's Degree from a recognized University or equivalent in any subject with Hindi medium and English as a subject at Degree level.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's Degree from a recognized University or equivalent in any subject with English medium and Hindi as a subject at Degree level.</p> <p>(ii) Five years' experience of translation work from English to Hindi and vice-versa out of which three years' experience should be in :</p> <p>(a) Supervision, and</p> <p>(b) vetting of translation or imparting training in translation work.</p>

12

(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)

13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion :— (i) Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman (ii) Joint Secretary, Department of Official Language —Member (iii) Director, Central Translation Bureau —Member	Consultation which the Union Public Service Commission is necessary for filling the post and amending and relaxing any provisions of these rules.

1	2	3	4	5
5. Translation-cum-Training Officer	*36(2006) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Services Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	Rs.7500-250-12000.	Selection

6	7	8	9
Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh)	No	Essential: (i) Master's Degree from a recognized University or equivalent in Hindi with English as a subject at Degree level. OR Master's Degree from a recognized University or equivalent in English with Hindi as a subject at Degree level, OR Master's Degree from a recognized University or equivalent in any subject with Hindi and English as subjects at Degree level, OR Master's Degree from a recognized University or equivalent in any subject with Hindi medium and English as a subject at Degree level,	Not applicable

6	7	8	9
Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).		<p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's Degree from a recognized University or equivalent in any subject with English medium and Hindi as a subject at Degree level.</p> <p>(ii) Three years' experience of translation work from English to Hindi and vice-versa out of which one year's experience should be in supervision and vetting of translation.</p> <p>Note 1.—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2.—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p> <p>Desirable :</p> <p>(i) Certificate or Diploma or Bachelor's Degree in linguistics from a recognized University/Institute or equivalent.</p> <p>(ii) Knowledge at the level of matriculation of a recognized board or equivalent of one of the subjects other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution.</p>	
10	11	12	
Two years for direct recruits.	Seventy five per cent by promotion failing which by deputation and twenty five per cent by direct recruitment.	<p>Promotion :</p> <p>Senior Translator/Research Assistant (since redesignated as senior translator) with three years regular service in the grade.</p> <p>Note .—Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite/qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Deputation :</p> <p>Officers under the Central Government, State Government and Union Territories :</p>	

12

(a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre/departments; or

(ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in scale of pay of Rs. 6500-10500 or equivalent in the parent cadre/department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years..

The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

I3

I4

Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion and confirmation :—

- | | |
|---|-----------|
| (i) Director, Central Translation Bureau | —Chairman |
| (ii) Director/Deputy Secretary, Department of Official Language | —Member |
| (iii) Joint Director, Central Translation Bureau | —Member |

Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for making direct recruitment, appointing an officer on deputation and amending and relaxing any of the provisions of these recruitment rules.

1	2	3	4	5
6. Senior Translator	(2006) 54* *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs.6500-200-10500.	Selection
6	7	8	9	
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt	No	Essential : (i) Master's Degree from a recognized University or equivalent in Hindi with English as a subject at Degree level. OR Master's Degree from a recognized University or equivalent in English	Age No. Educational Qualification : No. but must possess a Bachelor's Degree with hindi as a subject of a Recognized	

6	7	8	9
of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).		<p>with Hindi as a subject at Degree level,</p> <p>OR</p> <p>Master's Degree from a recognized University or equivalent in any subject with Hindi and English as subjects at Degree level,</p> <p>OR</p> <p>Master's Degree from a recognized University or equivalent in any subject with Hindi medium and English as a subject at Degree level,</p> <p>OR</p> <p>Master's Degree from a recognized University or equivalent in any subject with English medium and Hindi as a subject at Degree level.</p> <p>(ii) Three years' experience of terminological work in Hindi and/or Translation work from English to Hindi or vice versa preferably of technical or scientific literature.</p> <p>OR</p> <p>Three years' experience of teaching, research, writing or journalism in Hindi.</p> <p>Note 1.—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2.—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> <p>Desirable :</p> <p>Knowledge at the level of Matriculation of a recognized Board or equivalent of one of the Languages other than Hindi, mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution.</p>	University or equivalent.
10	11	12	
Two years for direct recruits.	Ten per cent by promotion failing which by deputation and ninety per cent by direct recruitment.	<p>Promotion :</p> <p>Technical Assistant with three years regular service in the grade.</p> <p>Note .—Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their</p>	

12

seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation :

Officers from the Central/State Governments and Union Territories :

- (a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre/departments; or
- (ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 5500-175-9000 or equivalent in the parent cadre/department; and
- (iii) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

13

14

Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion and confirmation :—

- (i) Director, Central Translation Bureau —Chairman
- (ii) Director/Deputy Secretary, Department of Official Language —Member
- (iii) Joint Director, Central Translation Bureau —Member

Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for making direct recruitment, appointing an officer on deputation and amending and relaxing any of the provisions of these recruitment rules.

1	2	3	4	5	6
7. Technical Assistant	(2006) 9* *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Services Group-B Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs.5500-175-9000.	Selection	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

7	8	9	10
No	<p>Essential :</p> <p>Master's Degree from a recognized University or equivalent in Hindi with English as a subject at Degree level,</p> <p>OR</p> <p>Master's Degree from a recognized University or equivalent in English with Hindi as a subject at Degree level,</p> <p>OR</p> <p>Master's Degree from a recognized University or equivalent in any subject with Hindi and English as subjects at Degree level,</p> <p>OR</p> <p>Master's Degree from a recognized University or equivalent in any subject with Hindi Medium and English as a subject at Degree level,</p> <p>OR</p> <p>Master's Degree from a recognized University or equivalent in any subject with English Medium and Hindi as a subject at Degree level.</p> <p>Note 1.—Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2.—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p> <p>Desirable :</p> <p>Two years experience in Translation from English to Hindi and vice-versa.</p>	<p>Age : No</p> <p>Educational qualification : No, but must possess a Bachelor's Degree from a recognized University or equivalent with Hindi and English as subjects.</p>	Two years for Direct Recruits and Promotees.

II

12

Ten per cent by promotion failing which by deputation.

Ninety per cent by direct recruitment.

The suitability of the regular holder of the post of Technical Assistant in the scale of Rs. 1400—2300 (Pre-Revised) prior to upgradation of this post in the scale of Rs. 5500-175-9000 will be initially assessed for appointment to the upgraded post. If assessed suitable he shall be deemed to have been appointed to the post at the initial constitution. If assessed "NOT SUITABLE" for appointment to the upgraded scale of pay he shall continue to be in the revised scale of Rs. 4500—7000 and his case would be reviewed every year.

Promotion :

Proof Reader with ten years regular service in the grade.

Note .—Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite/qualifying eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation :

Officers of Central Government :

- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre/department; or
- (ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 5000-150-8000 or equivalent in the parent cadre/department; or
- (iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 4500-125-7000 or equivalent in the parent cadre/department; or
- (iv) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 4000-100-6000 or equivalent in the parent cadre/department, and

- (b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column 8.

(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

13

14

Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion and confirmation :—

1. Director, Central Translation Bureau —Chairman
2. Joint Director, Central Translation Bureau —Member
3. Under Secretary, Department of Official Language —Member

Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for amendment/relaxation of any provision of these rules.

[F. No. 4-5/98-Admn.]

B.M.S. NEGI, Director (Policy)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)
CORRIGENDUM

New Delhi, the 13th January, 2006

G.S.R. 13.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Development number G.S.R. 176 dated the 20th May, 2000, published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) at page 921, in column 12, in line 4, for “(ii) above”, read “(ii) Failing (i) above”.

[File No. 8/53/96-PP&C (IPR-I)]

T. C. JAMES, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2006

सा. का. नि. 14.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1973 जहां तक इसका संबंध सी एस आर सहायक और जीवाणुनाशक यूनिट में तकनीशियन के पद से है और सफदरजंग अस्पताल (समूह 'ग') पद भर्ती नियम 1977 जहां तक इसका संबंध तकनीशियन (केन्द्रीय जीवाणुनाशक सेवा विभाग) के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में (केन्द्रीय जीवाणुनाशक कक्ष सहायक, तकनीशियन (जीवाणुनाशक यूनिट) और ज्येष्ठ तकनीशियन (केन्द्रीय जीवाणुनाशक सेवा विभाग) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, केन्द्रीय जीवाणुनाशक कक्ष सहायक, तकनीशियन (जीवाणुनाशक यूनिट) और ज्येष्ठ तकनीशियन (केन्द्रीय जीवाणुनाशक सेवा विभाग) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
केन्द्रीय जीवाणु- नाशक कक्ष सहायक	22* (2006) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसूचित	3050-75-3950- 80-4590 रुपए	लागू नहीं होता	25 वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10
नहीं	<p>आवश्यक :</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से एक विषय के रूप में विज्ञान के साथ मेट्रीकुलेशन या समतुल्य।</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल या चिकित्सा संस्थान से जीवाणुनाशक तकनीक में प्रशिक्षण; या किसी अस्पताल या चिकित्सा संस्थान के केन्द्रीय जीवाणुनाशक सेवा विभाग में एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पणी 1.— अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पणी 2.— अनुभव संबंधी अर्हता कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

11

12

प्रतिनियुक्ति या आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रतिनियुक्ति या आमेलन :

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने 2750—4400 रुपए के वेतनमान के पदों पर नियमित आधार पर तीन वर्ष की सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने 2650—4000/2610—4000 रुपए के वेतनमान के पदों पर नियमित आधार पर चार/पांच वर्ष की सेवा की है; या

(iv) जिन्होंने 2610—3540/2550—3200 रुपए के वेतनमान के पदों पर नियमित आधार पर छह/आठ वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) :

लागू नहीं होता।

- | | |
|--|----------|
| 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक | —अध्यक्ष |
| 2. विभाग प्रमुख (ऐनस्थीसिया) | —सदस्य |
| 3. उप निदेशक (प्रशासन) | —सदस्य |
| 4. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग का एक अधिकारी | —सदस्य |

टिप्पण : इस पद के मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 5, तारीख 5-1-1974 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

1	2	3	4	5	6
तकनीशियन (जीवाणु- नाशक यूनिट)	9* (2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	4000-100- 6000 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता
7	8	9	10		
नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कुछ नहीं		
11	12				
प्रोन्नति द्वारा		प्रोन्नति : ऐसे केन्द्रीय जीवाणुनाशक सेवा सहायक में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो, प्रोन्नति।			

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे:	लागू नहीं होता।
1. अपर चिकित्सा अधीक्षक —अध्यक्ष	
2. विभाग प्रमुख (ऐनस्थीसिया) —सदस्य	
3. उप निदेशक (प्रशासन) —सदस्य	
4. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग का एक अधिकारी —सदस्य	

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 5, तारीख 5-1-1974 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

1	2	3	4	5	6
ज्येष्ठ तकनी- शियन (केन्द्रीय जीवाणुनाशक विभाग)	5* (2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसूचित	4500-125- 7000 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कुछ नहीं		
11	12				

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>प्रोन्नति : ऐसे तकनीशियन (जीवाणुनाशक यूनिट) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो, प्रोन्नति।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों में से; (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 4000—6000 रुपए के वेतनमान के पदों पर नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हैं :— (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक विषय के रूप में विज्ञान के साथ मेट्रीकुलेशन या समतुल्य। (ii) किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या चिकित्सा संस्थान के जीवाणुनाशक विभाग में कार्य करने का पांच वर्ष का अनुभव</p> <p>वांछनीय:- किसी अस्पताल या चिकित्सा संस्थान के जीवाणुनाशक तकनीक में छह मास की अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।</p>
--	---

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :—	लागू नहीं होता।
1. अपर चिकित्सा अधीक्षक —अध्यक्ष	
2. विभाग प्रमुख (ऐनस्थीसिया) —सदस्य	
3. उप निदेशक (प्रशासन) —सदस्य	
4. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग का एक अधिकारी —सदस्य	

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 119, तारीख 21-1-1978 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

[फा.सं. ए-12018/30/2000- आरआर (एच)]

बी.बी. बब्बर, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 4th January, 2006

G.S.R. 14.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjung Hospital (Class III Posts) Recruitment rules, 1973, in so far as it relates to the posts CSR Assistant and Technician for Sterilisation Unit and the Safdarjung Hospital (Group 'C' posts) Recruitment rules, 1977, in so far as it relates to the post of Senior Technician (Central Sterilise Service Department) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Central Sterilisation Room Assistant, Technician (Sterilisation Unit) and Senior Technician (Central Sterilise Service Department) in the Safdarjung Hospital, New Delhi, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Safdarjung Hospital, New Delhi, Central Sterilisation Room Assistant, Technician (Sterilisation Unit) and Senior Technician (Central Sterilise Service Department) Group 'C' posts, Recruitment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
1. Central Sterilisation Room Assistant	22* (2006) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 3050-75-3950- 80-4590.	Not applicable	25 years. (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt application from candidates in India) and not the closing date prescribed for those in Assam, Mizoram, Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, State, Lahaul and

6

Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
No	<p>Essential :</p> <p>(i) Matriculation or equivalent with Science as a subject from a recognised board.</p> <p>(ii) Training in Sterilisation techniques from a recognized Hospital or Medical Institute; or</p> <p>One year experience in Central Sterilisation Services Department of a Hospital or Medical Institute.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 :—Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable	Two years for direct recruits.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
11	12
Deputation or absorption failing which by Direct Recruitment.	<p>Deputation or absorption : Officers under the Central or State Government;</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) with three years' regular service in posts in the pay scale of Rs. 2750—4400;</p> <p>(iii) with four/five years' regular service in posts in the pay scale of Rs. 2650—4000/2610-4000; or</p> <p>(iv) with six/eight years' regular service in posts in the pay scale of Rs. 2650—3540/2550-3200; and</p> <p>(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruit in column 8.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13	14
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation);	Not applicable.
1. Additional Medical Superintendent —Chairman	
2. Head of the Department (Anaesthesia) —Member	
3. Deputy Director (Administration) —Member	
4. An officer from any other Central Government Department belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category. —Member	

The principal rules of the pst was published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 5 dated 5-1-1974.

1	2	3	4	5	6
Technician (Sterilisation Unit)	9* (2006) *Subject to variation dependent upon workload	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 4000-100-6000.	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
No	Not applicable	Not applicable	Nil

11	12
By promotion	Promotion : Promotion from amongst Central Sterilisation Services Assistant with eight years regular service in the grade.

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :	Not applicable.
1. Additional Medical Superintendent —Chairman	
2. Head of the Department (Anaesthesia) —Member	
3. Deputy Director (Administration) —Member	
4. An officer from any other Central Government Department belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category. —Member	

The principal rules were published in the official Gazette vide G.S.R. No. 5 dated 5-1-1974.

1	2	3	4	5	6
Senior Technician (Central Sterilisation Service Department)	5* (2006) *Subject to variation dependent upon workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 4500-125-7000.	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Nil
11		12	
By Promotion failing which by deputation.		<p>Promotion : Promotion from amongst Technician (Sterilization unit) with five years regular service in the grade.</p> <p>Deputation : From amongst officers of Central or State Government;</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years' regular service in posts in the pay scale of Rs. 4000—6000; and</p> <p>(b) possessing the qualifications and experience as under :—</p> <p>(i) Matriculation or equivalent with science as a subject, from a recognized Board.</p> <p>(ii) Five years experience in Sterilisation department of recognized Hospital or Medical Institute.</p> <p>Desirable : Training of six months duration in Sterilisation techniques from a recognized Hospital.</p> <p>(The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications).</p>	

B	14
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :</p> <p>1. Additional Medical Superintendent —Chairman</p> <p>2. Head of the Department (Anaesthesia) —Member</p> <p>3. Deputy Director (Administration) —Member</p> <p>4. An officer from any other Central Government Department belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category. —Member</p>	Not applicable.

[F. No. A-12018/30/2000/RR-(H)]

B.B. BABBAR, Under Secy.

Note : The principal rules was published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 119 dated 21-1-1978.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(भारत मौसम विज्ञान विभाग)

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2006

सा. का. नि. 15.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विज्ञान और प्रौद्योगिकी (भारत मौसम विज्ञान विभाग) मंत्रालय, यांत्रिक काडर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1999 को, जहां तक उनका संबंध यांत्रिक श्रेणी-II (ड्राइवर) के पद से है जिसके अंतर्गत क्रम संख्यांक 10 पर स्टाफ कार ड्राइवर के रूप में पदाभिहित यांत्रिक श्रेणी-II (ड्राइवर) के 2 पद भी सम्मिलित हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत मौसम विज्ञान विभाग, विज्ञान

और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग) के कार्यालय में स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (भारत मौसम विज्ञान विभाग) स्टाफ कार ड्राइवर, भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
1. स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी)	19*(2006) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	3050-75- 3950-80- 4590 रु.	लागू नहीं होता -	नहीं
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।		
7	8	9	10		
23 और 30 वर्ष के बीच (विभागीय अभ्यर्थियों और अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए आयु सीमा में छूट समय-समय पर संशोधित नियमों के अधीन अनुज्ञेय होगी)	आवश्यक : 1. आठवां स्तर उत्तीर्ण हो। 2. विधिमानी चालन अनुज्ञप्ति रखता हो। 3. मोटर यांत्रिक का ज्ञान और भारी यानों को चलाने का कम से कम	नहीं	दो वर्ष (सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए)		

7

8

टिप्पणी-1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पणी-2 : (उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाएगी, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पांच वर्ष का अनुभव रखता हो।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में दो श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

11

12

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति द्वारा :

आवश्यक मानी जाने वाली समक्षमता के स्तर के संबंध में पद के लिए उपयुक्तता को न्याय निर्णीत करने के लिए डिजाइन किए गए चालन के परीक्षण के परिणाम पर आधारित भारत मौसम विभाग के नियमित मोटर साइकिल ड्राइवर (समूह "ग") और समूह "घ" कर्मचारियों में से जिनके पास स्तंभ (8) में उपदर्शित अर्हताएं हैं।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

लागू नहीं होता।

- | | |
|--|-----------|
| 1. मौसम विज्ञान का उप महानिदेशक/निदेशक | — अध्यक्ष |
| 2. स्थापना/प्रशासन का भारसाधक अधिकारी | — सदस्य |
| 3. अन्य विभाग से एक राजपत्रित अधिकारी | — सदस्य |

1	2	3	4	5	6
2. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II)	19*(2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित), अननुसचिवीय	4000-100-6000 रु.	अचयन	नहीं
7	लागू नहीं होता	8	लागू नहीं होता	9	नहीं
10	लागू नहीं होता				
11	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।				
12	प्रोन्नति : ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) में जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो और जो :— (क) अंग्रेजी की संख्या और अंकों को पढ़ने के योग्य हो, (ख) यातायात विनियमों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, (ग) त्रुटियों का पता चलाने और चालन के लघु मरम्मत करने के योग्य हो, (घ) पहियों को बदलने और टायरों में सही हवा भरने के योग्य हो।				
13	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :				
14	लागू नहीं होता।				
	1. मौसम विज्ञान का उप महानिदेशक	—अध्यक्ष			
	2. स्थापना/प्रशासन का भारसाधक अधिकारी	—सदस्य			
	3. अन्य विभाग से एक राजपत्रित अधिकारी	—सदस्य			
1	2	3	4	5	6
3. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I)	21*(2006) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित), अननुसचिवीय	4500-125-7000 रु.	अचयन	नहीं
7	लागू नहीं होता	8	लागू नहीं होता	9	नहीं
10	लागू नहीं होता				
11	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।				
12	प्रोन्नति : ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) में से जिन्होंने उस श्रेणी-II में पांच वर्ष नियमित सेवा की है या स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) और स्टाफ कार ड्राइवर				

12

(श्रेणी-II) के रूप में तेरह वर्ष नियमित सम्मिलित सेवा की हो, जिसमें कम से कम एक वर्ष की सेवा स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) के रूप में की हो, और जो :—

(क) अंग्रेजी संख्या और अंकों को पढ़ने के योग्य हो,

(ख) यातायात विनियम का भली-भाँति ज्ञान हो,

(ग) पेट्रोल और डीजल इंजन की कार्यप्रणाली का अच्छा ज्ञान हो और त्रुटियों का पता चलाने और चालन की लघु त्रुटियों को ठीक करने के योग्य हो,

(घ) कार्बोरेटर, प्लग आदि को साफ करने के योग्य हो।

13

14

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए)
निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

लागू नहीं होता।

- | | |
|--|----------|
| 1. मौसम विज्ञान का उप महानिदेशक/निदेशक | —अध्यक्ष |
| 2. स्थापना/प्रशासन का भारसाधक अधिकारी | —सदस्य |
| 3. अन्य विभाग से एक राजपत्रित अधिकारी | —सदस्य |

1	2	3	4	5	6
4. स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी)	03*(2006) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित), अननुसचिवीय	5000-150-8000 रु.	अचयन	नहीं
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता		

11

12

प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति :

भारत मौसम विभाग के ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-I में से जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति :

जिन्होंने 4500-125-7000 रु. के वेतनमान में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-I, उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर समूह पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

5461/2006—6

13

14

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए)
निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

लागू नहीं होता

- | | |
|--|----------|
| 1. मौसम विज्ञान का उप महानिदेशक/निदेशक | —अध्यक्ष |
| 2. स्थापना/प्रशासन का भारसाधक अधिकारी | —सदस्य |
| 3. अन्य विभाग से एक राजपत्रित अधिकारी | —सदस्य |

[सं. ए-12035/1/04-ई (3) (आरआर) (डाइवर) (एसएफएस)]

अंशुली आर्या, मौसम विज्ञान के उप महानिदेशक (प्रशासन और भंडार)

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(India Meteorological Department)

New Delhi, the 17th January, 2006

G.S.R. 15.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Science and Technology (India Meteorological Department) Mechanical Cadres (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1999, in so far as they relate to the post of Mechanic Grade-II (Driver) including 2 posts of Mechanic Grade-II (Driver) designated as Staff Car Driver at serial No. 10, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Drivers in the office of the India Meteorological Department, Ministry of Science and Technology (Department of Science and Technology) namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology (India Meteorology Department) Staff Car Drivers, Recruitment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, thier classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule. Annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of thses rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders and instructions issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
1. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	19* (2006) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Group 'C' Non- Gazetted Non-Ministerial	Rs.3050-75-3950-80-4590	Not applicable

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
6	7	8	9
No	<p>Between 23 and 30 years. (Age relaxation to Departmental Candidates and Scheduled Castes/Scheduled Tribes as admissible under Rules amended from time to time). Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and the Union Territory of Lakshadweep).</p> <p>Note 2 : In respect of posts the appointment to which are made through employment exchanges the crucial date for determining age limit, shall be the last date upto which the employment exchanges are asked to submit names.</p>	<p>Essential :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Shall have Passed Eight Standard 2. Shall hold valid driving licence 3. Shall possess knowledge of Motor Mechanism and experience of driving heavy vehicles for at least five years. 	No

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/absorption to be made.
10	11	12
Two years (For direct recruits)	By promotion failing which by direct recruitment	<p>By promotion :</p> <p>From amongst the regular Motor Cycle Driver (Group 'C') and Group 'D' employees of India Meteorological Department possessing the qualifications indicated in column (8) on the result of the test in driving designed to adjudge suitability for the post with respect to the standards of competence considered essential.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of :	Not applicable
1. Deputy Director General of Meteorology/ Director —Chairman	
2. Officer-in-Charge of Establishment/ Administration —Member	
3. One Gazetted Officer from another Department —Member	

1	2	3	4	5	6	7
(2) Staff Car Driver (Grade-II)	19*(2006) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Services, Group "C" (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Rs. 4000-100-6000.	Non-Selection	No	Not applicable

8	9	10
Not applicable	No	Not applicable

11	12
Promotion failing which by deputation	Promotion: Staff Car Driver in (Ordinary Grade) with eight years regular service in the grade who, — (a) shall be able to read English numerals and figures; (b) shall have a good knowledge of traffic regulation; (c) shall be able to locate faults and carry out minor running repairs; (d) shall be able to change wheels and correctly inflate tyres.

13	14
Group "C" Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of :	Not applicable.
1. Deputy Director General of Meteorology/Director.	—Chairman.
2. Officer-In-Charge of Establishment/Administration.	—Member.
3. One Gazetted Officer from another department	—Member.

1	2	3	4	5	6	7
(3) Staff Car Driver (Grade-I)	21*(2006) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group "C" (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Rs. 4500-125-7000	Non-Selection.	No	Not applicable.

8	9	10
Not applicable	No	Not applicable

11	12
----	----

Promotion failing which by deputation

Promotion:

From amongst Staff Car Driver (Grade-II) with five years regular service in the grade-II or thirteen years regular combined service as Staff Car Driver (Ordinary Grade) and Staff Car Driver (Grade-II) taken together with at least one year service as Staff Car Driver (Grade-II), who :—

- (a) shall be able to read English numerals and figures;
- (b) shall have a thorough knowledge of traffic regulation;
- (c) shall have good knowledge of petrol and diesel engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects;
- (d) shall be able to clear carburetor, plug etc.

B	14
---	----

Group "C" Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of :

Not applicable.

1. Deputy Director General of Meteorology/Director
2. Officer-In-Charge of Establishment/ Administration
3. One Gazetted Officer from another department.

— Chairman

— Member

— Member

1	2	3	4	5	6	7
(4) Staff Car Driver (Special Grade).	03* (2006) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group "C" (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Non-Selection	No	Not applicable.

8	9	10
Not applicable.	No	Not applicable

11	12
----	----

Promotion failing which by deputation.

Promotion :

From amongst Staff Car Driver Grade-I of India Meteorological Department with three years regular service in the grade.

Deputation :

Staff Car Drivers Grade-I in the pay scale of Rs. 4500-125-7000 with three years regular service in the grade.

(Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/departments shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for deputation is 56 years as on the closing date of receipt of application).

B	14
Group "C" Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of :	Not applicable
1 Deputy Director General of Meteorology/Director.	—Chairman
2 Officer-In-Charge of Establishment/Administration	—Member
3 One Gazetted Officer from another Department	—Member

[No. A-12035/1/04-E(3)(RR)(Driver)/SFS]

ANSHULI ARYA, Dy. Director General of Meteorology
(Administration and Stores)